



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



प्रेस नोट दिनांक 09.11.2021 थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम एवं सर्विलांस टीम थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 287/21 धारा 498ए/304बी/201 भादवि 3/4 द0प्र0अधि0 का अनावरण करते हुए अभियुक्त सोनू की निशादेही पर मृतका शिवानी के शव को नगला बांस के बीहड़ से बरामद कर 04 अभियुक्तगण / अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में, मु0अ0सं0 287/21 धारा 498ए/304बी/201 भादवि 3/4 द0प्र0अधि0 थाना मक्खनपुर से सम्बंधित नव विवाहिता / मृतका श्रीमती शिवानी उर्फ रूपा पत्नी रजत यादव निवासी ग्राम जेबड़ा थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 20 वर्ष के शव को थाना नगला सिंघी क्षेत्र के गांव नगला बांस झरना के बीहड़ धुंआधार बाबा के मंदिर के पास जंगलो से बरामद किया गया। जिसके शव को उसके पति व अन्य परिजनों द्वारा गड्डा खोदकर मिट्टी के अंदर दबा दिया गया था।

आज दिनांक 09.11.2021 को थाना प्रभारी महेश सिंह मय हमराहीयान के थाना क्षेत्र मक्खनपुर मे मामूर थे कि चमरौली चौराहे से मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र सुराजन यादव नि0 ग्राम जेबड़ा थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैंने व मेरे परिजनों द्वारा शिवानी उर्फ रूपा की हत्या कर उसके शव को थाना नगला सिंघी क्षेत्र के गांव नगला बांस झरना के बीहड़ धुंआधार बाबा के मंदिर के पास जंगलो मे गड्डा खोदकर दबा दिया था जिसकी निशादेही पर आगे आगे चलकर मृतका शिवानी उर्फ रूपा के शव को उक्त जगह से बरामद कराया गया। शव बरामदगी के समय उच्चाधिकारीगण मौजूद रहे तथा नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी। तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवाया गया। तथा पूर्व से रवानाशुदा अन्य पुलिस टीम प्रभारी उ0नि0 जय सिंह व मय हमराहीयान के अन्य वांछित अभियुक्तगण मे से 03 नफर अभियुक्तगण / अभियुक्ता 1.रामप्रवेश, 2. अवने उर्फ अवनेश पुत्रगण सुराजन व 3. श्रीमती अनीता देवी पत्नी सोनू निवासीगण ग्राम जेबड़ा थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद को पायनियर तिराहे से चैकिंग के दौरान शव को छिपाने मे प्रयुक्त मय गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं0 DL 1ZB 3957 के गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 287/21 धारा 498ए/304बी/201 भादवि 3/4 द0प्र0अधि0 थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद मे गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण / अभियुक्ता 1.सोनू, 2.रामप्रवेश, 3.अवने उर्फ अवनेश, 4.श्रीमती अनीता के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता -

1. सोनू पुत्र सुराजन यादव नि0 ग्राम जेबड़ा थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उम्र 35 वर्ष।
2. रामप्रवेश पुत्र सुराजन यादव नि0 ग्राम जेबड़ा थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उम्र 37 वर्ष।
3. अवनेश उर्फ अवनेश पुत्र सुराजन यादव नि0 ग्राम जेबड़ा थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उम्र 28 वर्ष।
4. श्रीमती अनीता पत्नी सोनू नि0 ग्राम जेबड़ा थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी -

1. मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित मृतका का शव ।
2. शव को छिपाने मे प्रयुक्त गाडी स्विफ्ट डिजायर नं0 DL 1ZB 3957.
3. शव को गाढ़ने / छिपाने मे प्रयुक्त एक अदद फावड़ा ।
4. मौके से बरामद एक अदद आधार कार्ड सोनू उपरोक्त ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. हीरालाल कनौजिया क्षेत्राधिकारी सदर जनपद फिरोजाबाद
2. महेश सिंह थाना प्रभारी थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद ।
3. उ0नि0 जय सिंह थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
4. उ0 नि0 घनश्याम थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
5. है0का0 02 सहदेव थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
6. का0 1177 हरवीर सिंह थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
7. का0 1473 सागर तोमर थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
8. का0 757 अश्वनी शर्मा थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
9. का0 624 विष्णु कुमार थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।
10. का0 1500 अश्वनी कुमार थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद।

सर्विलांस टीम:-

1. उ0नि0 अरुण कुमार सर्विलांस टीम फिरोजाबाद ।
2. है0का0 181 प्रशान्त चौहान सर्विलांस टीम फिरोजाबाद ।
3. का0 1384 प्रवीन कुमार सर्विलांस टीम फिरोजाबाद ।
4. का0 821 अनिल कुमार सर्विलांस टीम फिरोजाबाद ।